

अनुक्रमांक ...

नाम ...

152

347(KC)

2025

रसायन विज्ञान

समय तीन घण्टे 15 मिनट |



पूर्णांक 70

नोट प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है।

**Note** First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper.

निर्देश : i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं।

- ii) गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दर्जिए।
- iii) प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए।
- iv) जहाँ आवश्यक हो, रासायनिक समीकरण दर्जिए।

*Instruction :*

- i) All questions are compulsory. Marks allotted to each question are given in the margin.
- ii) In numerical questions, give all the steps of calculation.
- iii) Give relevant answers to the questions.
- iv) Give chemical equations, wherever necessary.

इस प्रश्न के प्रत्येक खण्ड में चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट :

- क.) 10 M HCl के 100 ml को 10 M  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  के 75 ml के साथ मिलाया गया। परिणामी विनयन होगा
- i) अम्लीय      ii) क्षारकीय      iii) उदासीन      iv) उभयधर्पी      1
- क.)  $\text{Cu}^{2+}$  ( $Z = 29$ ) में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है
- i) 1      ii) 2      iii) 3      iv) 4      1

347(KC)

a)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$  विलयन में कुल कितने आयन होंगे ?

- i) 2      ii) 3      iii) 4      iv) 5

1

b) विमलिक्षित में से कौन-सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है ?

- i)  $\text{CH}_3\text{COOH}$  ii)  $\text{HCOOH}$  iii)  $\text{HCHO}$  iv)  $\text{CH}_3\text{CHO}$

1

c) सूत्र  $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$  से कितने प्राथमिक एमीन माध्यम हैं ?

- i) 1      ii) 2      iii) 3      iv) 4

1

d) किस विटामिन के अभाव में स्कर्बी रोग हो जाता है ?

- i) B      ii) C      iii) D      iv) E

1

1. Four alternatives are given in each part of this question. Select the correct alternative and write it in your answer-book :

a) 100 ml of 10 M HCl is mixed with 75 ml of 10 M  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ . The resulting

solution would be

- i) acidic      ii) basic      iii) neutral      iv) amphoteric

1

b) Number of unpaired electrons in  $\text{Cu}^{2+}$  ( $Z=29$ ) is

- i) 1      ii) 2      iii) 3      iv) 4

1

c) Total how many ions are there in  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$  solution ?

- i) 2      ii) 3      iii) 4      iv) 5

1

d) Which compound of the following does not reduce Fehling's solution ?

- i)  $\text{CH}_3\text{COOH}$  ii)  $\text{HCOOH}$  iii)  $\text{HCHO}$  iv)  $\text{CH}_3\text{CHO}$

1

e) How many primary amines are possible for the formula  $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$  ?

- i) 1      ii) 2      iii) 3      iv) 4

1

f) Deficiency of which vitamin causes scurvy ?

- i) B      ii) C      iii) D      iv) E


1

2. क) क्वथनांक उन्नयन एवं मोललता में क्या सम्बन्ध है ? 2
- ख)  $\text{HgCl}_2$  तथा  $\text{SnCl}_2$  जलीय विलयन में साथ-साथ नहीं रह सकते, क्यों ? 2
- ग) उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}] \text{SO}_4$  तथा  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{SO}_4] \text{Cl}$  आयनीकरण समावयवी हैं। 2
- घ) निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए :
- $$\text{C}_2\text{H}_5\text{Br} \xrightarrow{\text{KOH}(aq)} (A) \xrightarrow[\Delta]{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4} (B)$$
- 1 + 1
2. a) What is the relation between elevation in boiling point and molality ? 2
- b) Aqueous solutions of  $\text{HgCl}_2$  and  $\text{SnCl}_2$  cannot co-exist, why ? 2
- c) Prove with example that  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}] \text{SO}_4$  and  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{SO}_4] \text{Cl}$  are ionisation isomers. 2
- d) Complete the following chemical equation :
- $$\text{C}_2\text{H}_5\text{Br} \xrightarrow{\text{KOH}(aq)} (A) \xrightarrow[\Delta]{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4} (B)$$
- 1 + 1
3. क) 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुली है। क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक  $0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$  है। 2
- ख) निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम बताइए : 1 + 1
- 
- i) बेन्जिल एल्कोहाल का बेन्जोइक अम्ल में परिवर्तन।
- ii) ब्यूटेन-2-ओन से ब्यूटेन-2-आल का बनना।
- ग) एथेनल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे ? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। 1 + 1
- 
- i) 3-डाइडाक्सी ब्यूटेनल    ii) ब्यूट-2-इन-अल
- घ) कीटोन केहलिंग विलयन तथा टालेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते, जबकि फ्रक्टोस जिसमें कीटोन सम्पूर्ण होता है, कर देता है। क्यों ? 2

3. a) 6 gm urea is dissolved in 200 gm water. Calculate the elevation in boiling point. Molal elevation constant for water is  $0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$ . 2
- b) Write the names of the reagents used in the following reactions : 1 + 1
- Conversion of benzyl alcohol into benzoic acid
  - Formation of Butan-2-one from Butan-2-one.
- c) How will you convert ethanol into the following compounds ? Write chemical equation only. 1 + 1
- 3-Hydroxy butanol
  - But-2-ene-al
- d) Ketones do not reduce Fehling's solution and Tollen's reagent while fructose containing ketonic group does. Why ? 2
4. क) परासरण दाब की परिभाषा लिखिए।

$27^\circ\text{C}$  पर यूरिया के 2% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन स्थिरांक  $S = 0.082 \text{ L atm. K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ . 1 + 2

- ख) फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को समझाइए। 3
- ग)  $\text{NH}_3$  का प्लैटिनम की सतह पर अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है।  $\text{N}_2$  एवं  $\text{H}_2$  के उत्पादन की दर क्या होगी ? ( $K = 2.5 \times 10^{-4} \text{ मोल लीटर}^{-1} \text{ सेकण्ड}^{-1}$ ) 3
- घ) निम्नलिखित आयन के जलीय विलयन का रंग लिखिए : 1 + 1 + 1




4. a) Write the definition of osmotic pressure. Calculate the osmotic pressure of 2% aqueous solution of urea at  $27^\circ\text{C}$ . Solution constant  $S = 0.082 \text{ L atm. K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ . 1 + 2

- b) Explain Faraday's laws of electrolysis. 3

- c) Decomposition of  $\text{NH}_3$  on the surface of platinum is zero order reaction. What will be the rate of formation of  $\text{N}_2$  and  $\text{H}_2$  ?

$$(K = 2.5 \times 10^{-4} \text{ mol litre}^{-1} \text{ sec}^{-1})$$

- d) Write the colour of following ions in aqueous solution : 1 + 1 + 1



5. क) इलेक्ट्रोड विभव क्या है ? इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। 1 + 3
- ख) आण्विकता व अभिक्रिया की कोटि में अन्तर को उदाहरण सहित समझाइए। 4
- ग) निम्नलिखित के आई० यू० पी० प० मी० नमूने लिखिए : 1 + 1 + 1 + 1
- $K_3[AlF_6]$
  - $[Fe(H_2O)_6]Cl_2$
  - $[Co(NH_3)_5Cl]SO_4$
  - $K_3[Fe(CN)_6]$
- (घ) ग्लूकोस से *n*-हेक्सेन, पेण्टाएसीटिल ग्लूकोस, ग्लूकोस सायनोहाइड्रीन तथा ग्लुकोनिक अम्ल बनाने की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। 1 + 1 + 1 + 1
5. a) What is electrode potential ? Mention the factors affecting it. 1 + 3
- b) Explain with example the difference between molecularity and order of reaction. <https://www.upboardonline.com> 4
- c) Write IUPAC names of the following : 1 + 1 + 1 + 1
- $K_3[AlF_6]$
  - $[Fe(H_2O)_6]Cl_2$
  - $[Co(NH_3)_5Cl]SO_4$
  - $K_3[Fe(CN)_6]$
- d) Write chemical equations of the reactions of formation of *n*-hexane, Penta acetyl glucose, Glucose cyanohydrin and Gluconic acid from glucose. 1 + 1 + 1 + 1
5. क) क्या होता है जब — (केवल रासायनिक समीकरण लिखिए) : 1 + 1 + 1 + 1 + 1
- सिल्वर प्रोपिओनेट की  $Br_2$  |  $CCl_4$  से अभिक्रिया होती है ?
  - ब्रोमोबेन्जीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg से अभिक्रिया होती है ?
  - मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया  $KCN$  (alc) से होती है ?
  - एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथाक्साइड के साथ गर्म करते हैं ?
  - एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एमीटेर के साथ अभिक्रिया करता है ?

b) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 1 + 2 + 2

- विलियमसन्स संश्लेषण
- गाटरमान अभिक्रिया
- कोल्बे अभिक्रिया ।



c) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 1 + 2 + 2

- बुर्ट्ज अभिक्रिया
- बुर्ट्ज-फिटिंग अभिक्रिया
- फिटिंग अभिक्रिया

d) कैसे परिवर्तित कीजिएगा — (केवल रासायनिक समीकरण लिखिए) : 1 + 1 + 1 + 1 + 1

- प्रोपीन को प्रोपीन-2-आल में ?
- बेन्जिल क्लोरोइड को बेन्जिल एल्कोहाल में ?
- फीनाल को 2, 4, 6-ट्राइब्रोमोफीनाल में ?
- फीनाल को पिक्रिक अम्ल में ?
- सैलिसिलिक अम्ल को फीनाल में ?

6. a) What happens when — (Write chemical equation only) : 1 + 1 + 1 + 1 + 1

- Silver propionate reacts with  $\text{Br}_2$  |  $\text{CCl}_4$  ?
- Bromobenzene reacts with Mg in the presence of dry ether ?
- Methyl bromide reacts with  $\text{KCN}$  (alc) ?
- Ethyl bromide is heated with sodium ethoxide ?
- Ethyl bromide reacts with silver acetate ?

b) Write short notes on the following : 1 + 2 + 2

- Williamson's synthesis
- Gattermann reaction
- Kolbe's reaction

OR

1 + 2 + 2

- a) Write short notes on the following : 1 + 2 + 2


  - Wurtz reaction
  - Wurtz-Fittig reaction —
  - Fittig reaction ○  
○○

b) How will you convert ... (Write chemical equation only) : 1 + 1 + 1 + 1 + 1

  - Propene into propene ○○ ?
  - Benzyl chloride into benzyl alcohol ?
  - Phenol into 2, 4, 6-tribromophenol ?
  - Phenol into Picric acid ?
  - Salicylic acid into Phenol ?

c) निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए :

क) निपटनिकृत समीकरणों को पूर्ण कीजिए।



उ) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :



$$\begin{array}{r} 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \\ \hline 2 + 2 + 1 \end{array}$$

- i) कार्बिल एमीन अभिक्रिया
  - ii) हाफैन ब्रोमेमाइड की अभिक्रिया
  - iii) शिप्ट अभिक्रिया ।

अथवा

क) विष्वलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए एवं  $A, B, C, D$  तथा  $E$  के नाम व सूत्र लिखिए।

1 + 1 + 1 + 1 +





iii) विषमिति में पथिल एवं अप्पीन कैसे प्राप्त करेंगे ? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

- |      |                   |      |              |
|------|-------------------|------|--------------|
| i)   | प्रथिल मायनाइड    | (ii) | प्रोपेनेपाइड |
| iii) | एमीटामाइड         | (iv) | नाइट्रोएथेन  |
| v)   | प्रथिल आइमोमायनेड |      |              |

7. a) Complete the following equations :





- b) Write short notes on the following:

2 + 2 +

- i) Carbylamine reaction
  - ii) Hofmann's bromamide reaction
  - iii) Schmidt reaction.

OR

- a) Complete the following reactions and write the names and formulae of A, B, C, D and E.



- b) How will you obtain Ethylamine from the following ? Write chemical equation only : 1 + 1 + 1 + 1 = 4

- i) Methyl cyanide      ii) Propanamide  
 iii) Acetamide      iv) Nitroethane  
 v) Ethyl isocyanate.

347(KC)-2,49,160